



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1930 (श10)
(सं0 पटना 43) पटना, वृहस्पतिवार, 26 फरवरी 2009

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अल्पकालीन निविदा सूचना

1ली अप्रील 2009 से 31 मार्च 2012 तक बोतल के परिभाषा में परिभाषित सैचेट में देशी शराब के विनिर्माण एवं आपूर्ति करने हेतु निविदा

सं० 594—बिहार राज्य में देशी शराब के मद्य भंडागारों से बिहार राज्य बिबरेजेज कॉ0 लि0 के गोदामों में पहली अप्रील, 2009 से 31 मार्च 2012 तक देशी शराब की सैचेट, जो बोतल के परिभाषा में परिभाषित हैं, में आपूर्ति करने के अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के निमित्त वार्षिक नवीकरण की शर्त पर प्रपत्र-27 में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु सरकार इच्छुक व्यक्ति/पार्टनरसीप फर्म/कम्पनी/आसवनगृह से निविदा आमंत्रित करती है। देशी शराब की आपूर्ति के लिये निविदा इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची (2) में उल्लिखित प्रपत्र "क" में समर्पित की जा सकती है। लिफाफे के ऊपर "सैचेट (जो बोतल के परिभाषा में परिभाषित है) में देशी शराब की आपूर्ति" लिखा रहे। निविदा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के विकास भवन नया सचिवालय, पटना 800015 स्थित कार्यालय में दिनांक 16.03.09 समय 3:00 बजे अपराह्न तक पहुंच जानी चाहिए। जिसे उसी दिन 4:00 बजे अपराह्न में आयुक्त उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

2. सरकार न्यूनतम या कोई भी निविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। अन्य सभी बातें एक समान रहने पर उन कार्यरत निविदादाताओं को ठेका की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका अपना भंडागार/निर्माणशाला हो तथा कार्यकलाप (आपूर्ति) संतोषप्रद रहा हो। चूंकि आसवनगृहों को पूर्व में राज्य में कार्य करने का अवसर नहीं रहा है, अतः आसवनगृहियों के मामले में यह शर्त शिथिल रहेगी। सरकार को यह अधिकार होगा कि निविदादाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) द्वारा निविदा का निपटारा कर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति करें। बिना कारण बताये कोई भी अथवा सभी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा स्वीकृति प्राधिकार द्वारा निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिये भी निविदा स्वीकार की जा सकेगी।

(क) सरकार को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि निविदादाता की निविदा स्वीकार किये जाने की स्थिति में अनुबद्ध अनुसूचि (1) में उल्लेखित प्रक्षेत्रों में से किसी भी प्रक्षेत्र का अनन्य विशेषाधिकार का ठेका स्वीकृत करें। उक्त स्थिति में सफल निविदादाता को यह अधिकार नहीं होगा कि वह निविदित प्रक्षेत्र के लिए ही ठेका स्वीकृत करने के लिए ही किसी प्रकार का दावा पेश करे। इस प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

(ख) कार्यरत आसवनगृह को छोड़कर वैसे निविदादाता यथा निजी व्यक्ति/पार्टनरसीप फर्म/कम्पनी जिन्हें देशी शराब के निर्माण एवं आपूर्ति के कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, के द्वारा ही समर्पित निविदा पर विचार किया जा सकेगा। कार्यरत आसवनगृह के मामले में उपरोक्त शर्त लागू नहीं होंगे।

(ग) उन्हीं निविदादाता के निविदा को स्वीकार किया जायगा, जिनके देशी शराब के विनिर्माण के व्यापार का वार्षिक टर्नओवर कम से कम 3 करोड़ रु० की होगी, इसके समर्थन में उन्हें अपेक्षित प्रमाणपत्र/कागजात समर्पित करना होगा। आसवनगृहों के मामले में यह शर्त शिथिल समझी जाएगी।

3. (क) प्रत्येक इच्छुक निविदादाता "0039" - राज्य उत्पाद शुल्क - "देशी स्पिरिट भट्टी-स्पिरिट शुल्क" बजट शीर्ष के अधीन कोषागार चालान द्वारा या आयुक्त उत्पाद, बिहार के पदनाम से थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/डिमान्ड ड्राफ्ट/किसान विकास पत्र के द्वारा प्रत्येक आपूर्ति प्रक्षेत्र के लिये जमानत की राशि के रूप में 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये जमा करेगा तथा उसे निविदा के साथ उपस्थापित करेगा। जिस निविदा के साथ यथाविहित युक्त जमानत जमा करने के प्रमाण स्वरूप कोषागार चालान अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/डिमान्ड ड्राफ्ट/किसान विकास पत्र संलग्न नहीं रहेगा उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाताओं को जमानत की राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु सफल निविदादाताओं की जमानत की राशि पूरे ठेका अवधि के लिये जमानत के रूप में रखी जायेगी।

सफल निविदादाता यदि प्रतिभूति राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करता है तो उक्त स्थिति में निविदा की स्वीकृति के पश्चात उन्हें डिमान्ड ड्राफ्ट के स्थान पर थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र या किसान विकास पत्र उतने ही राशि का जमा करना होगा।

(ख) यदि किसी अनन्य विशेषाधिकार के प्रक्षेत्र विशेष के लिए कोई योग्य निविदादाता नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अन्य प्रक्षेत्रों के लिए आवेदित योग्य पाये गये निविदादाताओं में से किसी एक को उक्त प्रक्षेत्र आवंटित करने का राज्य सरकार को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। इस अतिरिक्त आवंटित होने वाले प्रक्षेत्र के लिए संबंधित निविदादाताओं को उपर्युक्त निर्धारित जमानत राशि अलग से निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके पक्ष में स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(ग) देशी शराब की आपूर्ति हेतु निविदादाताओं से एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य के लिए एक समान दर की निविदा आमंत्रित की जाती है। देशी शराब की आपूर्ति हेतु चुने गए निविदादाताओं को निगोशियेशन द्वारा संपूर्ण राज्य के लिए मात्र एक दर पर विभिन्न प्रक्षेत्रों में देशी शराब की आपूर्ति करनी होगी। सहमत होने वाले निविदादाताओं के बीच प्रत्येक निविदादाता को एक या एक से अधिक प्रक्षेत्र आवंटित करने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा जिसमें निविदादाताओं को दिये गये प्रक्षेत्र की अधिमान्यता पर भी विचार किया जा सकता है। परन्तु यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा कि निविदादाता के द्वारा मांगा गया प्रक्षेत्र उन्हें अवश्य आवंटित किया जाये। परिस्थितियों को देखते हुए निविदादाताओं के द्वारा दिये गये अधिमान्यता से भिन्न प्रक्षेत्र भी उन्हें सरकार के द्वारा आवंटित किया जा सकता है जिसे स्वीकार करना उनके लिए बाध्यकारी होगा तथा आवंटित प्रक्षेत्र में आपूर्ति करने से इन्कार करने वाले निविदादाताओं की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

(घ) अनुज्ञाशुल्क का एकमुश्त भुगतान उस प्रक्षेत्र के प्रत्येक अनुज्ञाधारी को करना होगा, जो सदस्य, राजस्व पर्षद/आयुक्त उत्पाद द्वारा विनिश्चित एक रूपया प्रति एल० पी० लीटर की दर से उस वर्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर परिकलित होगा। यदि प्रक्षेत्र में देशी शराब की कुल थोक बिक्री/आपूर्ति वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक होती है तो उस अधिक मात्रा पर भी अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क 1/- रु० प्रति एल० पी० लीटर की दर से परिकलित होगा।

(ङ) निविदादाता निविदा के लिये आवेदन देते समय जिस प्रक्षेत्र के लिये अपना अधिमान्यता देंगे, वहाँ सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति हेतु आवश्यक संयंत्रों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट समर्पित करेंगे, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि प्रस्तावित क्षेत्र में कहां-कहां कितनी क्षमता के सैचेटिंग प्लान्ट लगे हैं अथवा लगायेंगे और सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति में किन-किन मदों पर अनुमानित कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा। साथ ही उन्हें आपूर्ति प्रक्षेत्र की निविदा के लिये राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया हुआ 35 लाख रुपये की पूंजी की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र (अनुसूची 4 संलग्न प्रपत्र में) समर्पित करना होगा।

(च) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आवेदक उस निमित्त पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे तथा संयंत्रों आदि की व्यवस्था कहाँ से करने का विचार रखते हैं। पूंजी की व्यवस्था निजी स्रोत से की जानी हो या ऋण से दोनों के ही समर्थन में प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया जायेगा। साथ ही ऋण मिल सकेगा ऐसा स्पष्ट बिना किसी शर्त का आश्वासन-पत्र भी संलग्न किया जायेगा। प्राईवेट पार्टी से ऋण प्राप्त किये जाने की स्थिति में उक्त पार्टी की वित्तीय क्षमता के समर्थन में भी बैंक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(छ) जिन व्यक्तियों की निविदा स्वीकृत की जाती है वे निविदा स्वीकृति के दो महीने के भीतर सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति करने हेतु आवश्यक व्यवस्था पूरी कर लेंगे। यदि दो महीने के भीतर उनके द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी तो उनकी निविदा को विखंडित करने की कार्रवाई की जा सकती है तथा जमानत की राशि भी जप्त की जा सकती है।

(ज) उत्पाद प्रपत्र-27 (अनुसूची 3) में विहित अनुज्ञापति में उल्लिखित शर्तों को इस निविदा सूचना का अंग माना जायेगा, मानो वे शर्तें इसमें उस हद तक छोड़कर, जिस हद तक इस निविदा सूचना द्वारा रूपभेदित की गई हो इस निविदा सूचना में सम्मिलित है, और निविदादाता रूप भेदित शर्तों सहित उस सभी शर्तों से भी सहमत हैं।

(झ) सैचेट में देशी शराब की विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिये जिस व्यक्ति/कम्पनी/पार्टनरसीप फर्म/कम्पनी/आसवनगृह की निविदा स्वीकार कर ली जाय वह उत्पाद प्रपत्र 27 में देशी शराब को निर्माण एवं आपूर्ति के लिये अनुज्ञप्ति की शर्तों का इस निविदा सूचना द्वारा यथा रूपभेदित सीमा तक छोड़कर पालन करेगा और उससे आबद्ध रहेगा।

(ण) जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार कर ली जाती है, वह अपनी निविदा की स्वीकृति का आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उत्पाद प्रपत्र 27 में अनुज्ञप्ति के लिये संबंधित समाहर्ता को आवेदन देगा। इस काम में चूक करने पर आयुक्त उत्पाद निविदादाता को कारण बताये बिना ही, उनकी निविदा की स्वीकृति रद्द कर देगा, उसकी जमानत जप्त कर लेगा और उसके जोखिम पर किसी अन्य निविदादाता को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। यदि निविदादाता की ऐसी चूक या इंकार के कारण सरकार को कोई घाटा होता हो, तो उससे (जमानत की राशि की जप्ती के अतिरिक्त) घाटे के रकम लोक माँग के रूप में वसूली जायेगी।

4.(i)(क) निविदादाता को अपनी निविदा में इसका स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए कि वह किस आसवनगृह से सुषव प्राप्त कर सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति करेगा।

(ख) इस अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत एक प्रक्षेत्र में ठीकेदारों को सैचेटिंग प्लान्ट बैटाने तथा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले जिलों में बिहार राज्य ब्रिवरेज कॉरपोरेशन लि० द्वारा स्थापित गोदाम में सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति करने का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकता है।

(ग) इस विशेषाधिकार के अन्तर्गत सभी ठीकेदारों (आसवनगृहपति अथवा गैर आसवनगृहपति) को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। किन्तु यदि सरकार उत्पाद कर के पूर्व भुगतान का आदेश दें, तब तदनुसार उत्पाद कर की राशि पूर्व आदायगी के उपरांत ही सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त, बिहार के निदेश का पालन करना होगा।

(घ) देशी शराब के निर्माण एवं उसके आपूर्तिकर्ता आयुक्त उत्पाद/समाहर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्षेत्र में आदेशित स्थल पर निर्माणशाला एवं मद्य भंडागार स्थापित कर वहाँ बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ० लि० के द्वारा स्थापित गोदाम में सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति करेंगे।

(ङ) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में माँग के अनुसार ठेकेदार 400 मि० ली०, 200 मि० ली० के सैचेट में 60 यू० पी० शक्ति की देशी शराब की आपूर्ति करेंगे।

(ii) निविदादाता द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित गोदामों से तथा उसके बाद खोले जाने वाले किसी अतिरिक्त गोदाम से इस निविदा सूची के साथ संलग्न अनुसूची 3 में निहित शर्तों के अनुसार सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ० लि० को दी जायेगी। ठीकेदार देशी शराब पर लागू कर आदि तथा उसकी थोक कीमत बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ० लि० से बैंक ड्राफ्ट से सीधे प्राप्त करेगा। वह इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि की रसीद बिहार राज्य ब्रिवरेजेज कॉ० लि० को देगा जो भंडागार में गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी। कर आदि एवं देशी शराब लागत मूल्य की प्राप्त राशि की रसीद ठेकेदार द्वारा अलग-अलग दी जायेगी।

(iii) निविदादाता को उत्पाद आयुक्त द्वारा यथाविहित प्रत्येक माल गोदाम में देशी शराब की निर्धारित शक्ति एवं मापों की शराब भरी सैचेट का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा, ताकि शराब की निकासी के समय स्कन्ध उपलब्ध रहे।

(iv)(क) ठेकेदार देशी शराब की सैचेटिंग एवं उसकी आपूर्ति के लिये अनुसूची-1 में दर्शाये गये आवंटित प्रक्षेत्रों के इंगित मद्य भंडागारों के परिसर में देशी शराब की सैचेटिंग के निमित्त संयंत्र, साजो-सामान, प्लान्ट एवं मशीनरी एवं भंडारण की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार यदि चाहे तो आयुक्त उत्पाद की पूर्व अनुमति प्राप्त कर राज्य में उस आवंटित प्रक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य आवंटित प्रक्षेत्र के सम्बद्ध जिला में से कम से कम किसी एक मद्य भंडागार से आपूर्ति कर सकते हैं, परन्तु ऐसे सैचेट में देशी शराब विहित गोदामों में पहुंचाने का दायित्व ठेकेदार का होगा तथा उसके लिये उन्हें कोई परिवहन व्यय एवं क्षति मान्य नहीं होगा ठेकेदार के सैचेटिंग प्लान्ट इस निविदा के अधिन देशी शराब के आपूर्ति हेतु पूर्णतया समर्पित होंगे।

(ख) यदि आयुक्त उत्पाद के आदेश से राज्य में आवंटित प्रक्षेत्र के किसी मालगोदाम से किसी अन्य ठेकेदार को आवंटित किसी अन्य प्रक्षेत्र के मालगोदाम में सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति की जाय तो उस अन्य ठेकेदार को अपने खर्च पर परिवहन एवं भंडारण करना होगा तथा हुई क्षति के लिये वे (अन्य ठीकेदार) ही देनदार होंगे।

(v) वर्ष 2007-2008 में राज्य के अन्य प्रत्येक जिले से कितनी देशी शराब की आपूर्ति की गयी है यह अनुसूची-1 में दर्ज है। ठीकेदारों द्वारा प्रत्येक गोदाम में सैचेट में देशी शराब की निर्धारित शक्ति एवं मापों की ही देशी शराब का (वार्षिक खपत के आधार पर कम-से-कम एक सप्ताह का) स्टॉक रखना अनिवार्य होगा। इसमें चूक करने पर सरकार कारण बताने का अवसर दिये बिना निविदा की स्वीकृति रद्द कर देगा, उसकी जमानत की राशि जप्त कर लेगा और उनके जोखिम पर ठेका को पुनः बन्दोबस्त करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

(vi) (क) सफल ठेकेदार द्वारा भंडागार एवं सैचेटिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए परिसर, भवन, संयंत्र, साज-सामान आदि की व्यवस्था निर्धारित समय के अंदर करना उनका दायित्व होगा। मद्य भंडागार एवं सैचेटिंग

प्लांट में प्रतिनियुक्त उत्पाद पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उचित कार्यालय एवं आवासीय व्यवस्था प्रदान करने एवं उसका खर्च वहन करने का दायित्व ठीकेदार का होगा।

(ख) ऐसे सभी मामलों में जहाँ ठीका वर्तमान ठीकेदारों से भिन्न व्यक्तियों को दिया जाये, नये ठीकेदार को ठीका की शर्तों के अनुसार वहिर्गामी ठीकेदारों के सभी संयंत्र साज-समान और ऐसे भवन जिन्हें आयुक्त उत्पाद, के द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जिला समाहर्ता द्वारा आदेश करने पर खरीद लेने पड़ेंगे। ऐसे सभी मामलों में संबंधित भूमि भवन के स्वामी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का दायित्व नये ठीकेदार का होगा। यदि वहिर्गामी और अन्तर्गामी ठीकेदार संयंत्र और भवन आदि के मूल्यांकन पर सहमत नहीं हो सके तो उस जिले के समाहर्ता उसकी कीमत तय करेंगे, विवाद की स्थिति में उस पर उत्पाद आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। निविदा स्वीकृत होते ही सफल निविदादाता वहिर्गामी ठीकेदार को भुगतान निमित्त सभी संयंत्र आदि का प्राक्कलन मूल्य ऐसी अवधि के भीतर उत्पाद आयुक्त के पास जमा कर देगा जो उत्पाद आयुक्त निश्चित करेंगे इसमें चूक होने पर इसे ठीका और अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे ठीकों को रद्द किया जा सकता है।

(vii) ठीकेदारों को प्रत्येक गोदाम के लिये अग्निशमन व्यवस्था, बिहार राज्य अग्निशमन विभाग द्वारा सुनिश्चित मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी।

5. (i)(क) सरकार को किसी ठीका की अवधि का उस कालावधि के लिये विस्तार करने का अधिकार होगा, जिसे वह ठीका की समाप्ति के समय विद्यमान परिस्थितियों में उचित समझे और कार्यरत ठीकेदार विस्तारित अवधि में निविदा की शर्तों के अनुसार आपूर्ति जारी रखने के लिये बाध्य होंगे।

(ख) यदि निविदादाता को ऐसी किसी चूक या इन्कार के कारण सरकार को कोई घाटा होगा तो उसकी जमानत की जप्ती के अलावा घाटे की रकम लोक मॉग के रूप में उससे वसूल की जायेगी। ठीका और उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन न करने पर अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना प्रतिभूति की रकम जप्त कर ली जायेगी। ठीका अवधि में जो नए गोदाम खोले जायेंगे वहां ठीकेदार ऐसा न्यूनतम स्कंध रखेगा जो उत्पाद आयुक्त निर्धारित करेंगे।

(ii) सरकार को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी मद्य निषेध नीति अथवा अन्य नीतिगत निर्णय के अनुसरण में या अन्य अपरिहार्य कारणों से पूरे राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में देशी शराब की आपूर्ति का वर्तमान ठीका को समाप्त कर दे या बोटल की परिभाषा में देशी शराब की आपूर्ति की प्रणाली में परिवर्तन करे, अनुज्ञाधारी उससे बाध्य होगा एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(iii) ठीकेदारों को प्रत्येक गोदाम का बीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बीमा एजेंसियों द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(iv) निविदादाता को निविदा के साथ निम्नलिखित अद्यतन प्रमाण-पत्र में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-

(क) नवीनतम दायर आयकर रिटर्न, आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ जो चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा सत्यापित मूलप्रति होना चाहिए।

(ख) i. निविदादाता को निविदा के साथ बिहार बिक्री कर के तहत निबंधित होने का प्रमाण पत्र संबंधित अंचल के प्रभारी द्वारा सत्यापित मूल प्रति देना होगा, अनिबंधित निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं होगी।

ii. वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त वाणिज्यकर शोधन/अनापत्ति प्रमाण पत्र जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद निर्गत किया गया हो। अगर वाणिज्यकर विभाग द्वारा शोधन प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निविदा के प्रकाशन के पूर्व निर्गत शोधन प्रमाण पत्र की मान्यता दी जाएगी, परन्तु यदि निविदा स्वीकृति के बाद भी निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार का वाणिज्य कर बकाया प्रतिवेदन वित्त वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है तो निर्धारित समय सीमा के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर निविदा की प्रदत्त स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

(ग) चरित्र प्रमाण-पत्र जो स्थायी निवास स्थान अथवा नियमित कारोबार से संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी द्वारा मूल रूप में प्रदत्त होना चाहिए और निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद निर्गत किया गया हो। यदि निविदादाता कोई निबंधित फार्म या कम्पनी हो तब उल्लेखित चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अपितु सक्षम पदाधिकारी (रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी) का इस बिन्दु पर प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न हो कि कम्पनी परिसमापन (लिक्विडेशन) में नहीं है, तो यह चालू हालत में है। यह प्रमाण पत्र निविदा प्रकाशन के बाद का निर्गत किया गया हो।

निविदा के साथ समर्पित कोई विहित प्रमाण-पत्र अगर फर्जी पाये जाये तब निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि इस बीच निविदा स्वीकृत गई हो तब भी निर्गत ठीका अथवा अनुज्ञप्ति रद्द कर जमानत की राशि एवं अन्य कोई जमा राशि जप्त की जा सकेगी।

(v) निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला दर्ज अथवा लंबित न हो तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायपता न हो, इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

यदि निविदादाता कोई निबंधित फार्म या कम्पनी हो तब उल्लिखित शपथ-पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।

(vi) यदि विगत 5 वर्षों में पूर्व उत्पाद अनुज्ञाधारी के रूप में निविदादाता को पूर्व प्रदत्त उत्पाद अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो तो तब उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध उत्पाद राजस्व का कोई बकाया नहीं है। यदि निविदा स्वीकृति के बाद भी उनके विरुद्ध किसी प्रकार के उत्पाद राजस्व बकाया की सूचना मिलती है तो उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर बकाये का पूर्ण भुगतान नहीं करने पर निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

(vii) निविदा के अनुसूची -2 के प्रपत्र "क" में निविदादाताओं द्वारा अपने स्थायी निवास एवं व्यवसाय का पता अंकित करना आवश्यक होगा। यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो सभी पार्टनर/निदेशकों की सूची (उनके पूरे पते के साथ) फर्म/कम्पनी के निबंधन-पत्र/पार्टनरशीप डीड तथा मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स आदि अभिलेखों को निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(viii) प्रसंगाधीन पूर्ण अवधि के लिए सफल निविदादाताओं को निहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने/नवीकृत कराने के पूर्व पूर्वगामी कंडिका के अधीन पुनः अद्यतन वाणिज्य कर शोधन/प्रमाण पत्र तथा कंडिका 15 के अधीन अद्यतन उत्पाद राजस्व बकाया शोधन शपथ पत्र दायर करना होगा।

(ix) इस निविदा के सभी शर्तें अनुज्ञप्ति की शर्तें मानी जायेगी।

(x) सफल निविदादाता बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 उसके अंतर्गत बनी नियमावलियों, निर्गत अनुदेशों तथा उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध रहेंगे जो उत्पाद विभाग, बिहार, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जायेंगे।

पटना:

दिनांक: 25 फरवरी 2009

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

एन0 विजयलक्ष्मी,

आयुक्त उत्पाद।

**अनुसूची -1
प्रक्षेत्रों की सूची**

क्रमांक	प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्र के अन्तर्गत जिला का नाम	खपत (लाख एल0 पी0 लीटर में) वर्ष 2007-2008	एम0 जी0 क्यू0 (लाख एल0 पी0 लीटर में) वर्ष 2008-2009	प्रक्षेत्र के अंतर्गत गोदामों का स्थल
1	2	3	4	5	6
1	पटना	पटना	59.41	75.93	पटना
2	भोजपुर	भोजपुर	11.87	16.68	भोजपुर
3	बक्सर	बक्सर	8.11	9.50	बक्सर
4	रोहतास	रोहतास	25.40	28.51	रोहतास
5	कैमूर	कैमूर	4.74	6.33	कैमूर
6	गया	गया	10.99	16.08	गया
7	जहानाबाद	जहानाबाद	1.55	4.75	जहानाबाद
8	नालंदा	नालंदा	21.11	22.91	नालंदा
9	नवादा	नवादा	6.48	9.50	नवादा
10	औरंगाबाद	औरंगाबाद	12.33	12.32	औरंगाबाद
11	अरवल	अरवल	1.43	2.53	अरवल
12	सारण	सारण	5.21	13.41	सारण
13	सिवान	सिवान	17.22	20.59	सिवान
14	गोपालगंज	गोपालगंज	11.21	15.63	गोपालगंज
15	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	8.83	15.84	मुजफ्फरपुर
16	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	6.76	8.98	सीतामढ़ी
17	शिवहर	शिवहर	1.14	1.80	शिवहर
18	वैशाली	वैशाली	6.43	8.98	वैशाली
19	पूर्वी चंपारण	पूर्वी चंपारण	8.75	15.73	पूर्वी चंपारण
20	प0 चंपारण	प0 चंपारण	10.84	16.26	प0 चंपारण
21	दरभंगा	दरभंगा	19.82	19.53	दरभंगा
22	समस्तीपुर	समस्तीपुर	11.25	12.14	समस्तीपुर

1	2	3	4	5	6
23	मधुबनी	मधुबनी	8.22	12.78	मधुबनी
24	बेगूसराय	बेगूसराय	10.09	12.99	बेगूसराय
25	भागलपुर	भागलपुर	4.55	10.56	भागलपुर
26	बांका	बांका	0.71	2.96	बांका
27	मुंगेर	मुंगेर	3.02	7.22	मुंगेर
28	जमुई	जमुई	1.60	5.37	जमुई
29	शेखपुरा	शेखपुरा	1.57	3.65	शेखपुरा
30	लखीसराय	लखीसराय	1.15	4.02	लखीसराय
31	खगड़िया	खगड़िया	4.06	5.76	खगड़िया
32	सहरसा	सहरसा	3.84	6.33	सहरसा
33	मधेपुरा	मधेपुरा	2.81	5.87	मधेपुरा
34	सुपौल	सुपौल	2.90	6.20	सुपौल
35	पूणियां	पूणियां	3.92	9.72	पूणियां
36	किशनगंज	किशनगंज	1.79	3.17	किशनगंज
37	अररिया	अररिया	2.47	5.28	अररिया
38	कटिहार	कटिहार	5.50	9.89	कटिहार
		कुल	329.08	465.70	

अनुसूची - 2

प्रपत्र (क)

आवेदन का प्रपत्र

दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिये बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैसे में भरकर देशी शराब की थोक आपूर्ति करने के लिए निविदा।

- 1.(क) निविदादाता का नाम :-
- (ख) निविदादाता के पिता का नाम :-
- (ग) निवास, गाँव, थाना, जिला और राज्य :-
- (घ) कारोबार का स्थान और उसका पूरा पता :-
- (ङ) निविदादाता अगर कम्पनी फर्म हैं तो उसके निदेशकों की एक सूची, नाम एवं पूर्ण पता के साथ अलग से संलग्न किया जाये
2. प्रक्षेत्र का नाम जिसके लिये निविदा दी जा रही है -
3. जमानत के रूप में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिये 3,00,000.00 (तीन लाख) रुपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप मूल कोषागार चालान या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख जो निविदा के साथ संलग्न है।
- 4.(क) यदि बिहार में निविदादाता को अपनी डिस्टीलरी हो, जहाँ से सुषव प्राप्त कर सैसे में देशी शराब की आपूर्ति करेंगे उसका पूरा विवरण दें।
- (ख) यदि निविदादाता को बिहार में अपनी डिस्टीलरी नहीं हो तो जिस स्रोत से सुषव प्राप्त कर देशी शराब की आपूर्ति करेंगे उसका पूरा विवरण दें।
- (ग) बतायें कि निविदादाता के अपना अथवा अपने नियंत्रण में मद्य भंडागार, सैचेटिंग प्लांट है अथवा नहीं, अगर हाँ तो नाम के साथ विवरण दें।
- (घ) बतायें कि निविदा कि साथ सूचना की शर्त 2 (घ) की अपेक्षानुसार जिस प्रक्षेत्र के लिये निविदा दे रहे हैं उस प्रक्षेत्र में देशी शराब की आपूर्ति सैसे में कराने हेतु आवश्यक संयंत्रों तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर में संबंधित स्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया है या नहीं। बतावें कि संयंत्रों एवं अन्य कार्यों के लिये क्या व्यवस्था की गयी है तथा कहाँ से वे पूंजी एवं संयंत्रों की व्यवस्था करेंगे। आश्वासन पत्र के रूप में राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत 35 लाख रुपये का आर्थिक सक्षमता का प्रमाण-पत्र (विहित प्रपत्र में) संलग्न करें।
5. बतावें कि शुद्ध छोआ से बनी शराब निविदा-सूचना की अनुसूची-1 के स्तम्भ 6 में उल्लिखित वांछित गोदामों से निविदा-सूचना की अनुसूची-3 में दिये गये निर्देश के अनुसार सैसे में विहित आकार एवं शक्तियों को देशी शराब प्रति सैसे किस कीमत पर खुदरा अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति करेंगे। जिसमें सैचेटिंग खर्च, सुषव की लागत, कर सहित अन्य लागत भी सम्मिलित हों।

6. जिस प्रक्षेत्र के लिये निविदा दी गयी है उनमें अवस्थित माल गोदामों में सुषव संचय और देशी शराब की सैचेटिंग के लिये कैसी व्यवस्था है, तथा कौन-सी प्लान्ट, मशीनरी, संयंत्र आदि लगाये जायेंगे तथा उनकी दैनिक क्षमता क्या होगी, तत्संबंधी स्पष्ट विवरण दिया जाय।
7. (i) वाणिज्य कर विभाग के कर-शोधन प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख दें जो निविदा के साथ संलग्न है।
(ii) अद्यतन आयकर रिटर्न एवं पावती की संख्या एवं तारीख जो निविदा के साथ संलग्न है।
8. चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है अथवा नहीं।
9. उत्पाद राजस्व का बकायेदार न होने के संबंध में शपथ प्रमाण-पत्र संलग्न है अथवा नहीं।
10. अन्य कोई सूचना जो देय हो।

घोषणा

मैं, उपर्युक्त निविदादाता घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सही है और इसके द्वारा इस निविदा सूचना और प्रपत्र 27 में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की सभी शर्तों और बंधेज का पालन करना स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता का हस्ताक्षर।

अनुसूची - 3

प्रपत्र -27

इससे अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र में देशी शराब बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैसेट में विनिर्माण कर उत्पाद प्रपत्र 27(ग) में अनुज्ञप्त थोक विक्रेता को आपूर्ति के लिये अनुज्ञप्ति।

इसके द्वारा सर्वश्रीको जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सामने उल्लिखित प्रकार की शराब की बिक्री के लिये बिहार उत्पाद अधिनियम (बिहार एक्सार्सिज ऐक्ट), 1915 की धारा 13 तथा 20 के उपबन्धों के अधीन इसमें आगे बताई गई शर्तों पर तारीखसे..... के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

शर्तें

1. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेंची गई शराब उत्पाद आयुक्त द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी और इससे अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी सामग्री से बनी रहेगी, परन्तु सतत यह भी है कि अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में किसी समय अन्य सामग्रियों से भी बना कोई शराब अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति कर सकेगा, बशर्त कि उत्पाद आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे ऐसा करने की अनुमति दे दें।
2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनिर्माणशाला इसके अधीन शराब की बिक्री के लिये उक्त क्षेत्र में आगे खोले जाने वाले और तत्काल आयुक्त उत्पाद /समाहर्ता द्वारा स्वीकृत गोदामों से भिन्न किसी अन्य स्थान में कोई भी शराब बेंची न जाय।
3. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बिक्री के लिये उक्त गोदामों में रखी गयी शराब का समाहर्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेश द्वारा या अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा आवधिक विश्लेषण किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी उसमें पाई गई किसी त्रुटि को जिसे आयुक्त उत्पाद महत्वपूर्ण समझें, सुधारने के लिये बाध्य होगा और उसके बारे में उनका लिखित निर्णय अंतिम होगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी बिहार उत्पाद (शुल्क) अधिनियम, 1915 से और उसके अधीन बनाये गये नियमों से जहाँ तक उनका इससे संबंध हो, आबद्ध रहेगा। वह जिस क्षेत्र में शराब की बिक्री करना चाहते हैं उस क्षेत्र की प्रत्याभूत मात्रा पर 1/-रु0 एल0 पी0 ली0 की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क (लाइसेंस फीस) एक मुश्त जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो उतनी ही अधिक मात्रा के लिए अधिक अनुज्ञप्ति शुल्क लाइसेंस फी देय होगा।
5. इसके अनुबद्ध अनुसूची में बताई गई शराब के विभिन्न प्रकारों में विनिर्दिष्ट विनिर्माणशाला से बिक्री की दशा में वही कीमत ली जायेगी जो ऐसी अनुसूची में ऐसे विनिर्माणशाला से इंगित किमतों और शराब के प्रकारों के सामने उल्लिखित शक्ति के अनुरूप निकाली जाय। उपर्युक्त शर्त 2 के उपबंधानुसार आगे मंजूर किये जाने वाला किसी विनिर्माणशाला या विनिर्माणशालाओं से या उपर्युक्त शर्त-1 के अधीन उत्पाद आयुक्त के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सामग्री से बनी किसी शराब की बिक्री होने पर उसकी कीमत वही होगी जो यथा स्थिति ऐसी अनुमति देने पर उत्पाद आयुक्त नियत करेंगे या ऐसी अनुमति में विनिर्दिष्ट हो अथवा (इस प्रकार नियत कीमत के बारे में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपत्ति करने पर) राजस्व पर्वद निर्धारित करे।

6. उक्त विनिर्माणशाला से शराब की बिक्री बोटल में भरकर की जायेगी। शराब की शक्ति, माप तथा बोटलिंग की प्रक्रिया वही होगी जो राजस्व पर्वद समय-समय पर विशेष या सामान्य आदेश देकर नियत करेंगे।
7. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री समय-समय पर केवल उन्हीं व्यक्तियों (थोक प्राप्त बिक्रेता के रूप में विनिर्दिष्ट) के साथ की जायेगी, जो विहित प्रपत्र में पारक पेश करेंगे और जिसमें उनके हाथ शराब बेचने का प्राधिकार दिया गया हो और उनकी हाथ केवल उसी प्रकार/प्रकारों और उतनी ही मात्रा में शराब की बिक्री की जायेगी जो ऐसे पारकों में उल्लिखित हों, उससे अधिक नहीं।
8. (क) अनुज्ञप्तिधारी को उस विनिर्माणशाला से जहाँ उसे अनुज्ञप्ति के अधीन समय-समय पर शराब बेचने की अनुमति दी गई हो, अनुज्ञप्ति प्राप्त बिक्रेताओं द्वारा पेश किये गये पारकों में उल्लिखित मात्रा या मात्राओं में और प्रकार/प्रकारों की शराब की बिक्री के तौर पर आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।
- (ख) उपर्युक्त शर्त-7 में विनिर्दिष्ट शराब की आपूर्ति में चूक करने पर उत्पाद आयुक्त के निदेशानुसार अर्थदंड लगाया जायेगा। अर्थदंड की रकम उतनी तक हो सकती है जो अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक बिक्रेताओं द्वारा माँगी गई किन्तु आपूर्ति की गयी शराब पर लगने वाले उत्पाद कर तथा आपूर्ति में चूक के चलते सरकार को होने वाले राजस्व की हानी की रकम हो।
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी, समाहर्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेशानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी के विनिर्माणशाला को उस अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर शराब की आपूर्ति करेगा जो निर्धारित मात्रा में शराब की आपूर्ति करने में विफल रहा है। आयुक्त उत्पाद अपने विवेक से ऐसे विफल अनुज्ञप्तिधारी पर अर्थदंड लगा सकते हैं।
- (घ) यदि किसी प्रक्षेत्र के नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही हो तो समाहर्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेश पर नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही हो तो उस प्रक्षेत्र के अगल-बगल के प्रक्षेत्र में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा निर्धारित दर पर उस अनुज्ञप्तिधारी को देशी शराब की आपूर्ति करना बाध्यकारी होगा।
- (ङ) अनुज्ञप्तिधारी उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध होगा जो उत्पाद आयुक्त, समय-समय पर जारी करें।
9. हरेक निर्माणशाला में जहाँ अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री तत्काल अनुमत हों, विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब भरी सैचेट में शराब की ऐसी न्यूनतम मात्रा (स्कंध) रखी जायेगी जो समय-समय पर उत्पाद आयुक्त/जिला समाहर्ता नियत करे और अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित करें। यदि कभी भी इस विहित न्यूनतम मात्रा से स्कंध कम हो जाय तो अनुज्ञप्तिधारी इसे विहित न्यूनतम मात्रा तक तुरन्त पूरा कर देगा। यदि वह समाहर्ता या विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी से ऐसा करने की नोटिस मिलने के बाद 7 (सात) दिनों के भीतर ऐसा नहीं करें तो समाहर्ता किसी भी स्रोत से, जो वह उचित समझे इसे पूरा करने के लिये अपेक्षित शराब (जिसमें विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब की सैचेट भी शामिल है) प्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी माँग करने पर समाहर्ता को इस प्रकार प्राप्त किसी शराब का कोई ऐसा खर्च भी देने का भागी होगा जो उसकी बिक्री से कीमत के रूप में वसूली गई रकम से ज्यादा हो, इस खर्च में मार्ग व्यय भी शामिल है।
10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी निर्माणशाला को जो अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति है और जहाँ अनुज्ञप्ति के अधीन सैसे में शराब बेचने की तत्काल अनुमति दी गई हो, जलापूर्ति संबंधी स्रोतों और साधनों की व्यवस्था एवं समय-समय पर यथोचित और पर्याप्त मरम्मत एवं अनुरक्षण अपनी खर्च पर करेगा और उन्हें अच्छी चालू स्थिति में रखेगा। अनुबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपेक्षित सभी नए निर्माणशाला अनुज्ञप्तिधारी के खर्च से बनाये और अनुरक्षित किये जायेगे। यदि ऐसे निर्माणशाला जहाँ इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुमति दी गई हो, सरकारी संपत्ति हो, तो उन्हें सरकारी निदेशानुसार और सरकारी खर्च से अनुरक्षित किया जायेगा किन्तु अनुज्ञप्तिधारी उन सरकारी मकानों की, जिनमें प्रभारी सरकारी पदाधिकारियों के क्वाटर भी है, दखल में रखने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर से किराये का भुगतान करेगा। साथ ही, वह उचित टूट-फूट को छोड़कर सरकारी मकानों और उसमें लगी सरकारी संपत्ति की हुई क्षतियों के लिये जिसमें आग से क्षति भी शामिल है की भरपाई करेगा। इस पर समाहर्ता का निर्णय अंतिम होगा। जहाँ तक नगरपालिका करों का संबंध है, गृह कर (सामान्य नगरपालिका कर) का सरकार भुगतान करेगी।
- सभी अतिरिक्त करों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी करेंगे, भले ही वे कर, शुल्क या स्थानीय कर के रूप में उल्लेखित हो। अनुज्ञप्तिधारी निर्माणशाला से संलग्न कार्यालयों में लिपिकों, पदाधिकारियों तथा निरीक्षण पदाधिकारियों के उपयोग के लिये उपर्युक्त फर्नीचर रखेगा। उसे आवश्यकतानुसार ऐसे सभी फर्नीचरों की मरम्मत और बदलाव भी करना होगा।
11. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति या उसके किसी नवीकरण की अवधि बीतने पर अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद आयुक्त के चाहने पर :-
- (क) अपने उत्तराधिकारी को कोई ऐसा मकान जिसे इस अनुज्ञप्ति के अनुसार बनाया या अर्जित किया गया हो, उतने मूल्य पर जिस पर वह और उसके उत्तराधिकारी सहमत हों, सौंपने के लिये बाध्य होगा। यदि वे सहमत नहीं हो सकें तब उत्पाद आयुक्त द्वारा नियत मूल्य पर उसे सौंप देने के लिये वह बाध्य होगा।

- (ख) अपने उत्तराधिकारी को शराब की आपूर्ति, संचय, प्रबंधन (हैंडलिंग) सैचेटिंग और निर्गमन के लिये व्यवहृत ऐसे संयंत्र जिन्हें उत्पाद आयुक्त विनिर्दिष्ट करें उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य पर सौंप देने के लिये बाध्य होगा और अनोबर्वत अनुज्ञप्तिधारी को इन संयंत्रों को उस मूल्य पर स्वीकार करना पड़ेगा। पट्टेदारी पर लिए गये परिसर में संचालित मद्य भंडागार के मामले में यदि पट्टेदार इस पट्टे की समाप्ति के पूर्व किसी समय किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उक्त पट्टान्तरित परिसर या उसके किसी भाग पर अपना कब्जा करने का इच्छूक हो तथा समाहर्ता के स्वीकृति से अपनी ऐसी इच्छा की नोटिस पट्टाधारी पर तामिल करें, तो पट्टाधारी उपर्युक्त नोटिस मिलने की तारीख से तीन महीनों के भीतर उक्त पट्टान्तरित परिसर अथवा उसके ऐसे भाग को खाली कर देगा जो उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट हो। यदि पट्टेदार उत्पाद आयुक्त की सहमति से बनाये गये किसी भवन या किये गये किसी सुधार के लिए पट्टेदारी को किसी क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करें और उपर्युक्त क्षतिपूर्ति के रकम के बारे में मदभेजद हो तब उस पर उत्पाद आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
12. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की आपूर्ति मापों, प्रबंधन (हैंडलिंग), सैचेटिंग, बिक्री और निर्गमन के लिये आवश्यक या उचित अथवा उनसे संबंधित या उनके लिये उपर्युक्त सभी जगहों और चीजों की जिनमें कुन्ड, टंकी पम्प पाईप, टांटी, मापी, और बर्तन आदि भी है कि अनुज्ञप्तिधारी उन निर्माणशाला में उपयोग के लिये लाइसेंसधारी व्यवस्था करेगा जहाँ इस लाइसेंस के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुज्ञप्ति दी गयी है। ऐसे निर्माणशाला में शराब के संचय या निर्गमन के लिये भैट, टंकियों और पीपे उतनी संख्या में और उतनी क्षमता के होंगे और उस डिजाइन के अनुसार बैठाए जायेंगे जैसा उत्पाद आयुक्त समय-समय पर निदेश दें। उपर्युक्त में निपजन दंड (डिपिंग रॉड) भी लगे रहेंगे। शराब के संचय या उपचयन के लिये नए कुंड काठ/लोहे के बने होंगे। अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसे सभी गोदामों में अपचयन के लिये जल पहुँचाने की और शराब के सम्मिश्रण के पहले जल पहुँचाने और उस जल का यथोचित इसके बारे में समाहर्ता का लिखित आदेश निर्णायक होगा। फीलट्रेशन और शोधन कराने तथा सैसे हेतु ऐसी क्षमता के संयंत्र लगाने की अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेवारी होगी जो उस भंडागार से होने वाली निर्गमन के अनुरूप हो। वह इस संबंध में समाहर्ता/उपायुक्त के सभी लिखित निदेशों को प्राप्त होने के बाद तुरन्त पालने के लिये बाध्य होगा।
13. इसमें सरकार को यह आदेश सुरक्षित रहेगा कि यदि वह चाहें तो किसी जिला के सभी निर्माणशालाया किसी एक गोदाम से सैचेटिंग कर देशी शराब की आपूर्ति की व्यवस्था किसी अवधि विशेष में लागू करें। ऐसे करने पर अनुज्ञप्तिधारी किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। अनुज्ञप्ति के अधीन सभी सैचेटिंग प्लान्टों में शराबों का संचय/अपचयन, सैचेटिंग और बिक्री निर्गमन निर्माणशाला के प्रभारी सरकारी पदाधिकारी के सतमें पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी हरेक गोदाम में एक अंग्रेजी जानने वाला लिपिक रखेगा जो शक्ति निकालने वास्ते शराब के अपचयन तथा सभी छीजनों (वेस्टेजों) और संकीचनों के लिये जिम्मेवार होगा। अनुज्ञप्तिधारी की मार्गस्थल एवं कार्यकारी क्षति देय नहीं होगा।
14. उत्पाद आयुक्त द्वारा कोई ऐसा आदेश जिससे निर्माणशाला भवनों में या शराब के संचय/अपचयन सम्मिश्रणों सैचेटिंग और निर्गमन या जलापूर्ति की व्यवस्था में मौजूद कोई त्रुटि दूर करने की अपेक्षा की गई हो, अनुज्ञप्तिधारी उसका तुरन्त पालन करेगा और आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उसे त्रुटि को अवश्य दूर कर देगा। ऐसा न करने पर उसे वह अर्थदंड जिसका उत्पाद आयुक्त आदेश दें तथा उन सभी खर्च का भी जो इन त्रुटियों को दूर करने में लगेगा भुगतान करना पड़ेगा।
15. इस विशेषाधिकार के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। किन्तु यदि देय कर का भुगतान का सरकार द्वारा आदेश हो जाये तब तदनुसार कर की राशि पूर्व आदायगी के उपरांत ही सुषव की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में उत्पाद आयुक्त, बिहार का निदेश का पालन करना होगा।
16. विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी थोक अनुज्ञाधारी से कर एवं देशी शराब का लागत मूल्य बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर बोटल में देशी शराब की निकासी देंगे। इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि के अलग-अलग रसीद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थोक अनुज्ञाधारी को दी जायेगी जो भंडागार के गार्डफाइल में सुरक्षित रखेज जायेंगे।
17. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 27 के अधीन लगाये गये उत्पाद-कर (डियूटी) की दरों में कोई फेर-बदल होने से इस अनुज्ञप्ति की शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
18. यदि समाहर्ता या उत्पाद आयुक्त आदेश दें तो अनुज्ञप्तिधारी इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित हरेक निर्माणशाला में शेष बची शराब की उतनी मात्रा जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान औसतन प्रतिमाह बेची गई उसी मूल्य पर लेने के लिए बाध्य होगा जिस मूल्य पर यह पूर्ववर्ती वर्ष में बची गई थी परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी इस मूल्य को स्वीकार नहीं करें तो उत्पाद आयुक्त इसे निर्धारित करेगें जो अनुज्ञप्तिधारी को मान्य होगा।
19. राजस्व पर्षद /सरकार किसी ठेका अवधि का उस कालावधि के लिये विस्तार कर सकती है जिसे वह ठेका समाप्ति के समय विद्यमान परिस्थितियों में उचित समझें और कार्यरत ठेकेदार विस्तारित अवधि में निविदा/अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार आपूर्ति जारी रखने के लिये बाध्य होंगे।

20. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद चाहे या इसकी किसी नवीकरण की अवधि बीत जाने पर अनुज्ञप्तिधारी की उक्त अनुज्ञप्ति के तहत अवशेष बचे सुषव/शराब का निष्पादन राजस्व पर्षदीय नियमावली के नियमों के अनुसार किया जायेगा। अवशेष बचे सुषव एवं शराब अनुवर्ती अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेने से इनकार की स्थिति में इसकी बिक्री उस दर पर लगायी जायेगी। जो उत्पाद आयुक्त नियत करें।
21. अनुज्ञप्तिधारी इन शर्तों के पालन की प्रतिभूति स्वरूप ऐसे हरेक निर्माणशाला के संबंध में जहाँ इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुमति दी गई है, उत्पाद आयुक्त के पास सरकारी प्रोमिसरी नोट के रूप में या (उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रूप में) ऐसी रकम जमा करेगा जो वे निदेशित करें।
22. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 93 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अर्थदंड और अन्य रकमों जिनका अनुज्ञप्तिधारी उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भागी हो उपर्युक्त प्रतिभूति से वसूलनीय होंगे।
23. सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी मद्य निषेध नीति के अनुसार या अन्य कोई विशेष कारण से किसी भी क्षेत्र में देशी शराब की आपूर्ति बन्द कर दे या आपूर्ति प्रणाली, यथा सैचेटिंग की व्यवस्था में परिवर्तन किया करें, अनुज्ञप्तिधारी उससे बाध्य होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
24. निविदा की शर्तों और बंधेज इस अनुज्ञप्तिधारी की शर्तों बंधेज माने जायेंगे और पूर्ववर्ती कंडिकाओं में सन्निविष्ट इस अनुज्ञप्ति की शर्तों और बंधेज जहाँ तक वे उपर्युक्त निविदा की शर्तों और बंधेज से असंगत हों, उपरोक्त दशा में रूपभेदित समझें जायें।
25. यदि ठेकेदार या उसके एजेंट उस अनुज्ञप्ति की किन्ही शर्तों का उल्लंघन या अपालन करें तो उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन यह अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित कर दिया जायेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 57 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अर्थदंड का भागी होंगे।
26. अनुज्ञप्तिधारी बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी नियमावलियों एवं राजस्व पर्षद/उत्पाद आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विशेष अनुदेशों का पालन करने को बाध्य होगा।

समाहर्ता

प्रतिरूप करार – पत्र

मैं,उपर्युक्त अनुज्ञप्तिधारी अपने तथा अपने वारिसों, वैद्य प्रतिनिधियों और सुनिवेशितियों की ओर से इसके द्वारा करार करता हूँ कि इसके पहले लिखित और व्यक्त सभी शर्तों और बंधेजों का पालन करूँगा और उससे बाध्य रहूँगा।

तारीख :

गवाह :

हस्ताक्षर

अनुसूची - 4

फार्म 2 ए बैंक का प्रतिवेदन

अधिसूचित बैंक द्वारा प्रदत्त सम्पन्नता प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी एवं सूचनानुसार मेसर्स/श्री (नाम)
जो हमारे बैंक के एक आदर्श ग्राहक है, और इनपर किसी व्यवसाय के लिये रू0 (अंको में)
.....(शब्दों में) तक के लिये सक्षम माना जा सकता है।

मेसर्स (आवेदक का नाम) के नाम अभी वर्तमान में इस बैंक में रू0(अंको में)
.....(शब्दों में) की राशि जमा है एवं आवेदक को इस राशि से रू0(अंको में)
.....(शब्दों में) तक की अधिक राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर।

बैंक का नाम :

पता :

तिथि :

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 43-571+500-डी0टी0पी0।